

The Listing Department  
Bombay Stock Exchange Ltd.

27<sup>th</sup> July, 2017

Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Mumbai- 400 001  
TEL: 91-22-22721233/4  
FAX: 91-22-22721919

**Sub: Intimation of Board Meeting pursuant to Regulation 29 (1) & (2) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement), Regulations 2015 for consideration and adoption of Un-Audited Financial Results for the Quarter ended 30<sup>th</sup> June, 2017.**

**Ref: Company Code No. 531417 MEGACOR**

Dear Sir,

This is with reference to the captioned subject; in this regard we want to inform your good office that the meeting of the Board of Directors pursuant to Regulation 29(1) & (2) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement), Regulations, 2015 is scheduled to be held on Thursday, the 10<sup>th</sup> day of August, 2017 at 4.00 P.M. at the registered office of the Company.

The Agenda of the said meeting interalia includes, considering and adoption of Un-Audited Financial Results for the Quarter ended 30<sup>th</sup> June, 2017.

In this regard we are enclosing herewith copies of Newspaper cutting for publication of notice was published in the following newspapers:

1. The Financial Express dated 28th July, 2017 (Friday) (English) published from New Delhi (Notice Text).
2. Jansatta dated 28th July, 2017 (Friday) (Hindi) published from New Delhi (Notice Text).

Kindly acknowledge the receipt of the same.  
Thanking you.

Yours faithfully,  
For Mega Corporation Limited

  


**Surendra Chhalani**  
Director and CFO  
DIN: 00002747

Encl.: A/a

**Mega Corporation Limited**  
108, First Floor, Taimoor Nagar  
Opp. New Friends Colony  
New Delhi- 110025  
P +91 11 41516171  
F +91 11 26912728  
E info@mcorp.ltd  
www.megacorp.ltd.com  
CIN: L01120DL1985PLC092375

# 4 COMPANIES

# FINANCIAL EXPRESS

Priority of India & Highways)  
 (Call)  
 mode only)  
 ancancy Services for  
 onstruction of 2-lane  
 om km 165.40 to km  
 ment in the State of  
 to 1100 Hrs.)  
 & www.infracon.nic.in  
**ROADS**  
**TECTION LTD.**  
 Chandigarh-160 019  
 chemicals.com  
 request from the  
 ertificate have been  
 certificate thereof  
 irlekar / Sobha  
 uld approach the  
 on of this notice.  
**K ABROL**  
**E) & SECRETARY**  
**डिडिया**  
**India**  
 U SINCE 1911  
**DLHI-110001.**  
 able Property)  
 icer of Central  
 h, under the  
 o. 54 of 2002)  
 n 13 (12) read  
 ement) Rules,  
 , calling upon  
 23/- (Rupees  
 Three Only)  
 notice along  
 various credit  
 y the amount  
 nd incidental  
 the amount,  
 d the public in  
 ossession of  
 e of powers  
 aid act read  
 7.2017. The  
 in general is  
 any dealing  
 tral Bank of  
 amount of  
 akh Three  
 ure interest  
 on of sub-  
 ect of time  
**PROPERTY**  
 (Building)  
 stt. Solan,  
 0 Sq.Mtr.  
 , HPSIDC,  
 Himachal  
 sed Officer,  
 ank of India

**Fruition Venture Limited**  
 CIN: L74899DL1994PLC058824  
 Regd office: 21-A, 3<sup>rd</sup> Floor, Savitri Bhawan, Commercial  
 Complex, Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009  
 Tel: +91-11-47027878; Fax: +91-11-47561818  
 Website: www.fv.co.in; Email: cs@fruitionventure@gmail.com

**NOTICE**

Pursuant to clause 41 of the listing Agreement, Notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, the 04<sup>th</sup> day of August, 2017 at the registered office of the Company to inter alia consider and approve the unaudited financial results of the Company for the quarter ending June 30, 2017.

For and on behalf of the Board  
 Fruition Venture Limited  
 Sd/-  
 (Richa)  
 CFO  
 Date: 27.07.2017  
 Place: New Delhi PAN: BQMMPR4063F

**"IMPORTANT"**

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

**MOHIT PAPER MILLS LIMITED**  
 Regd. office: 15a/13, upper Ground Floor, East Patel Nagar, New Delhi-110008  
 CIN : L21093DL1992PLC116600  
 Website : mohitpaper.in  
 Email : mohit.paper@rediffmail.com

**NOTICE**

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company pursuant to regulation 29 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 is scheduled to be held on Thursday the 10<sup>th</sup> day of August, 2017 at 11:00 A.M. at the registered office of the Company, Inter-alia to consider and approve the Un-Audited Financial Results for the quarter ended on 30<sup>th</sup> Day of June, 2017.

Further this is to inform that as per the Company's Code of Conduct formulated and adopted under SEBI (prohibition of insider trading regulations), 2015 trading window for directors, designated employees and their relatives for dealing in equity shares of the Company shall remain closed from 27/07/2017 and will open after 48 hours of un-audited results for the quarter ended on 30/06/2017, being made public.

FOR MOHIT PAPER MILLS LIMITED  
 Sd/-  
 Sandeep Jain  
 (Managing Director)  
 Place : New Delhi  
 Date : 27/07/2017  
 DIN-00458048

**DTC India Limited**  
 CIN: L51226DL1918PLC306032  
 Regd Office: 3<sup>rd</sup> Floor, 4/17-B  
 Asaf Ali Road, New Delhi - 110002  
 Tel: +91-11-42322200 Fax: +91 011 23280388

**NOTICE**

Notice is hereby given that, pursuant to Regulation 47(1)(a) of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday the 31<sup>st</sup> July, 2017 at 11.30 A.M. at the Registered Office of the Company, 3<sup>rd</sup> Floor, 4/17 - B Asaf Ali Road, New Delhi - 110002 to, inter alia, consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2017.

For DTC India Limited  
 Sd/-  
 D.K. Singh  
 Whole-Time Director  
 Date : 24.07.2017  
 Place : Delhi  
 DIN : 06411142

**भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड**  
**Container Corporation of India Ltd.**  
 (भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)  
 ICD, Tughlakabad, New Delhi - 110 020

**TENDER NOTICE (E-Tendering Mode Only)**

Online Open Tender in one bid system for the "Contract for Conservancy, Housekeeping & Horticulture services at ICD/Moradabad" only through e-tendering mode. The bid document can only be downloaded after paying ₹1000.00 through online from the website ([www.tenderwizard.com/CCIL](http://www.tenderwizard.com/CCIL)).

Tender No.	CON/NR/TC/MBD/C&H/2017
Estimated Cost	₹ 24,24,780/- (for total contract period )
Period of the contract	2 + 1 Year
Earnest Money Deposit	₹ 24,248/- through e-payment.
Cost of Document	₹ 1000/- Inclusive of all taxes and duties through e-payment
Tender Processing Fee	₹ 1,431/- Inclusive of all taxes and duties (Non-refundable) through e-payment.
Date of Sale (On Line)	From 28.07.2017; 15:00 hrs. to 18.08.2017 upto 16:00 hrs.
Last Date & Time of submission	19.08. 2017 upto 15:00 hrs.
Date & Time of Opening	22.08.2017 at 15:30 hrs.

CONCOR reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reasons thereof. For complete details logon to [www.tenderwizard.com/CCIL](http://www.tenderwizard.com/CCIL). Executive Director/NR

**सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया**  
**सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**  
 Central Bank of India  
 Corporate Finance Branch  
 33, N. S. Road, 1st Floor, Kolkata- 700 001  
 Ph. No. : 2230 3606 Fax : 2262 4653

**APPENDIX - IV [Rule 8(1)]**  
**POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)**

Whereas,  
 The undersigned being the authorized officer of the CENTRAL BANK OF INDIA under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and duly authorized by the 1) Central Bank of India 2) Punjab National Bank 3) SBBJ 4) Indian Overseas Bank 5) UCO Bank 6) United Bank of India 7) Corporation Bank 8) Andhra Bank 9) IDBI Bank and 10) State Bank of India and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 29.04.2016 and same was published in two leading News Papers, THE FINANCIAL EXPRESS (in English) & JANSATTA (in Hindi) on 11.05.2016 respectively calling upon the borrower/guarantors M/S Jain Infraprojects Ltd., M/S Century Awasan Pvt. Ltd., Mr. Manoj Kumar Jain, Mrs. Rekha Manoj Jain, M/S Tushita Builders Pvt. Ltd., Suraj Abasan Pvt. Ltd., M/S Smriti Food Park Pvt. Ltd., M/S Neptune Plaza Maker Pvt. Ltd., M/S Prakash Vanijiya Pvt. Ltd., M/S Prakash Endeavours Pvt. Ltd. to repay the amount mentioned in the notice being ₹1213.91 Crores (Rupees One Thousand Two Hundred Thirteen Crores and Ninety One Lakhs round off ) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

**The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby giving to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub-section 4 of Section 13 of the act read with the Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) rules, 2002 on this the 25<sup>th</sup> day of July of the year 2017.**

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge including the charge of the following Banks for ₹1213.91 Crores (Rupees One Thousand Two Hundred Thirteen Crores and Ninety One Lakhs round off ) as on 31.03.2016 and interest thereon.

BANKS	TOTAL LIMIT	Rupees in Crores (rounded off)	
		TOTAL OUTSTANDING 31.03.2016	Date of NPA
Central Bank of India	225.00	320.48	31.03.2043
IDBI Bank	162.44	259.07	30.09.2013
Punjab National Bank	47.50	85.86	30.06.2013
SBBJ	58.00	98.04	28.10.2012
Indian Overseas Bank	125.00	180.25	31.12.2012
UCO Bank	54.50	75.35	31.03.2013
United Bank of India	77.00	93.22	31.03.2013
Corporation Bank	5.00	7.95	04.07.2013
Andhra Bank	150.00	93.69	03.05.2013
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>904.44</b>	<b>1213.91</b>	

**The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section (13) of the Act, in respect of the time available, to redeem the secured assets**

**Description of the Immovable Property**

Three and half storied Building situated at Plot No. U 213, ShakerpurKhas, Ilaka - Shahdara, Delhi - 110 092 admeasuring an area of 100 Sq. yards. **Boundary :** North - Plot No U 214, South - Plot No. U 212, East - Other property, West - Gali 20 ft. wide. Title deed No. 14232 executed on 17.11.2005 by Shri Gyan Chand in favor of M/S Prakash Vanijiya Pvt. Ltd., registered in the office of Sub Registrar VIII Delhi in the State of Delhi and recorded in Additional Book No. I Volume No. 2053 on Pages 8 to 12 on 17.11.2005

Place : Kolkata Date : 25.07.2017  
 Authorised Officer, Central Bank of India

**Diageo asks Mallya to return \$40 mn**  
**PRESS TRUST OF INDIA**  
 London/New Delhi, July 27

**BRITISH LIQUOR GIANT** Diageo said on Thursday it has asked beleaguered businessman Vijay Mallya to return \$40 million paid to him as part of the \$75-million (₹515 crore) sweetheart deal for his exit from United Spirits.

Diageo has stopped payment of \$7 million a year to Mallya as part of the deal and sought compensation for the losses incurred by it.

The British firm had agreed to pay Mallya, who now lives in the UK after Indian banks approached courts to recover money lent to his now defunct airline, \$75 million over five years as global non-compete and non-interference fee post his exit from United Spirits (USL).

Citing violation of the agreement by Mallya, Diageo has also ruled out the future instalments to him, saying "it was not liable to pay such amount".

"Diageo and other group companies have demanded from Mallya the repayment of \$40 million which was paid by Diageo on February 25, 2016, and also sought compensation from him for various losses incurred by the relevant members of the Diageo group on account of the breaches committed by him," Diageo said in its Preliminary Results for the year ended June 30, 2017.

**MEGA CORPORATION LTD.**  
 CIN: L01120DL1985PLC092375  
 108, First Floor, Taimoor Nagar  
 Opp. New Friends Colony  
 New Delhi- 110025  
 P +91 11 41516171, F +91 11 26912728  
 e-mail: info@megacorp.ltd  
 www.megacorp.ltd

**NOTICE**

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Regulation 29(1) & (2) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on 10<sup>th</sup> August, 2017 at 04:00 P.M at the Registered Office of the Company inter-alia, to consider & take on records the Un-Audited Financial Results for the Quarter Ended 30<sup>th</sup> June, 2017.

By the Order of Board  
 For Mega Corporation Limited  
 Sd/-  
 Surendra Chhalani  
 Director & CFO  
 Place: New Delhi  
 Date: 27.07.2017  
 Din: 00002747



